



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 7 मई, 2022

बैशाख 17, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 776/9-1-2022-263परि0-17

लखनऊ, 7 मई, 2022

संशोधित

अधिसूचना

प0आ0-113

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 11 ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना संख्या 2281/9-1-2017-263परि0-2017, दिनांक 5 मई, 2017 द्वारा नगर पालिका परिषद बॉगरमऊ, जनपद उन्नाव को 25 वार्डों में विभाजित करते हुए, वार्डों का निर्धारण/परिसीमन किया गया है। उक्त अधिसूचना के वार्ड संख्या 9 के रूप में “भंगियाना” वार्ड परिसीमन निम्नानुसार किया गया है:-

वार्ड सं०	वार्ड का नाम	वार्ड का विस्तार
9	भंगियाना	<p>उत्तर में चौधरी शान्ती मोहन सिंह की गद्दी से राम किशन के मकान तक डामर रोड के मध्य तक का दक्षिणी भाग।</p> <p>पूरब में चौधरी शान्ती मोहन सिंह की गद्दी से श्याम गुप्ता के मकान तक रोड के मध्य तक का पश्चिमी भाग।</p> <p>दक्षिण में श्याम गुप्ता के मकान से राम केशन के मकान तक रोड के मध्य तक का उत्तरी भाग।</p> <p>पश्चिम में राम केशन के मकान से राम किशन के मकान तक रोड के मध्य तक का पूर्वी भाग।</p>

2—उक्त अधिसूचना के क्रमांक 9 में वार्ड का नाम “भंगियाना” अंकित किया गया है, जो असंसदीय शब्द/विशेष जाति सूचक शब्द है। अतः उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 11 ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना संख्या 2281/9-1-2017-263परि0-2017, दिनांक 5 मई, 2017 के वार्ड संख्या 9 को इस सीमा तक एतद्वारा संशोधित किया जाता है:—

वार्ड सं०	वार्ड का नाम	वार्ड का विस्तार
9	सिद्धार्थनगर	<p>उत्तर में चौधरी शान्ती मोहन सिंह की गद्दी से राम किशन के मकान तक डामर रोड के मध्य तक का दक्षिणी भाग।</p> <p>पूरब में चौधरी शान्ती मोहन सिंह की गद्दी से श्याम गुप्ता के मकान तक रोड के मध्य तक का पश्चिमी भाग।</p> <p>दक्षिण में श्याम गुप्ता के मकान से राम केशन के मकान तक रोड के मध्य तक का उत्तरी भाग।</p> <p>पश्चिम में राम केशन के मकान से राम किशन के मकान तक रोड के मध्य तक का पूर्वी भाग।</p>

अधिसूचना दिनांक 5 मई, 2017 के शेष अन्य उपबन्ध यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।